

Date: 17-07-2023

The Secretary Listing Department BSE Limited PJ Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Script Code: 532696	The Secretary Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051 Script Code: EDUCOMP
--	--

Sub: Copies Of Newspaper Advertisement For Standalone Financial Results For The Quarter And Half Year Ended On September 30, 2020.

Dear Sir / Madam,

The company has published the unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2020. Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisements published by the Company in the newspapers i.e. Business Standard (English Language) and Business Standard ((Hindi Regional Language) on July 17, 2023.

The above may please be treated in compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Part A of Schedule III of the said Regulations.

This is for your information and records.

Thanking You,
Yours Truly,

**For Educomp Solutions Limited
(Under CIRP)**



Mahender Khandelwal
Resolution Professional in the matter of Educomp Solutions Limited
Taken on record
IBBI Reg. No IBBI/PA-001/IP-P00033/2016-17/ 10086
Encl : As Above

Note: As informed earlier also vide various communications, had ordered the commencement of CIRP in respect of the Company under the provisions of Code. Thereafter, in accordance with Section 17 of the Code, the powers of the Board stood suspended and Dr. Sanjeev Aggarwal was appointed as interim resolution professional of the Company. The IRP carried out his duties from May 30, 2017 till Mr. Mahender Khandelwal was appointed as Resolution Professional ("RP") vide the order of NCLT dated September 12, 2017 and took over the management of the affairs of the Company.

Educomp Solutions Limited
(CIN: L74999DL1994PLC061353)
Corporate office: 514, Udyog Vihar, Phase III, Gurgaon – 122001, Haryana (INDIA).
Tel.: 91-124-4529000.
Registered Office: 1211, Padma Tower I, 5, Rajendra Place, New Delhi-110008.
Web site www.educomp.com; email: investor.services@educomp.com

Macro uncertainties may keep IT hiring in slow lane this fiscal year

SHIVANI SHINDE
Mumbai, 16 July

India's information technology (IT) sector will witness subdued hiring in 2023-24 as macro uncertainties impact demand environment, with clients either taking a pause on spend or stopping discretionary spend, say human resource experts.

To begin with, unlike earlier years, the three large IT players TCS, HCLTech, and Wipro have not provided any new hiring targets for the financial year. And Wipro has said that its hiring target will depend on the demand environment.

According to HR experts, students graduating in the academic year 2023 will find it difficult to land a job.

Tata Consultancy Services (TCS), which traditionally has been hiring aggressively, saw a nominal increase in headcount, adding 523 employees in the first quarter of FY24.

In Q4, TCS saw a net addition of 821 employees. Q1 FY23 is the lowest Q1 hiring quarters witnessed in the last four years. The only aberration was in Q1 FY21, when there was a net decline of 4,788.

Similarly, in the case of the third largest IT services firm HCLTech, Q1 FY24 saw a net decline of 2,506 employees.


Even during the pandemic quarter, the company saw a net fall of 100 employees.

Wipro had a net decline of 8,812 people in Q1FY24. This is the third consec-



DWINDLING NUMBERS

Net headcount addition/decline



Experts say slowdown in businesses impacted campus hiring in 2022, and will have ripple effect in 2023

utive quarter of decline in headcount.

Infosys, the second largest IT services company, which will announce its Q1 results on July 20, is yet to give its FY24 hiring targets.

"We do see a small revival in the IT services industry. However, the overall sentiment in the market is of 'no rush' because the overall market is subdued for hiring," said S Pasupathi, chief operating officer (COO), HirePro, a recruitment automation solutions provider.

When asked about the campus hiring scenario, Pasupathi said that the slowdown in businesses has impacted campus hiring in 2022, which would have ripple effects in 2023 as well.

"Because of the market scenario in 2022, the absorption of early talent spilled over to 2023. This means for the 2024 batch the hiring process that starts in July-August might be delayed by a couple of months," he explained.

This is also evident from the comments made by TCS chief human resources officer (CHRO) Milind Lakkad.

When asked if the company will rethink its hiring targets for FY24, which is at 40,000 he said: "The hiring target remains the same. But how it (onboarding) gets played out over the year will depend on the business situation."

It is this uncertainty, which is making companies not to give a sharp commentary on hiring. Wipro in its Q1 FY24 media briefing said that its hiring will depend on the current business environment.

Indian IT services fresher hiring and onboarding typically happens over a period of 18 months.

Companies visit campuses between July/August-September of a year and give offers to students who

join the next year and onboarding goes on till December.

Post the global uncertainty, off-campus hiring for 2022 and 2023 has been subdued.

"The students who graduate in 2023 will have the toughest time, because their placement which started in 2022, the market was not good and even as they graduate now the market is not great," Pasupathi explained.

This uncertainty in hiring persists, even as attrition at companies have also fallen. Attrition in TCS has come down sharply to 17.8 per cent for Q1, compared to 20 per cent in Q4FY23.

Similarly, in case of HCL Tech, attrition came down to 16.3 per cent in Q1 FY24 from 19.5 per cent in Q4FY24 and 23.8 per cent in Q1FY23.

At Wipro attrition went down from 19.4 per cent in Q4FY23 to 17.3 per cent in Q1FY24.

However, the only silver lining is lateral hiring, which has seen a slight revival.

"Overall, the hiring outlook in the IT sector for Q2 FY24 is expected to be cautious yet strategic. While hiring volumes may remain relatively muted, organisations will focus on optimising existing talent, strategically acquiring specialised skill sets, and embracing emerging technologies," said Sachin Alug, CEO, NLB Services.

"Organisations are likely to prioritise hiring for critical positions and specialised skill sets that align with their growth strategies and the evolving needs of their clients," he added.

'Implied value of Goodnight is ₹30,000 cr'

The implied value of Goodnight business based on current market capitalisation of Godrej Consumer Products (GCPL) is around ₹30,000 crore, which was bought by the group's FMCG arm for just ₹100 crore in 1994, the company said.

"We believe this business has an implied value of around ₹30,000 crore today," said GCPL chairperson Nisaba Godrej.

PRESS TRUST OF INDIA

Bridge the distance between you and your dreams with Union Miles

- Attractive Rate of Interest
- No pre-closure or part-payment fees
- No documentation charges/No hidden charges

Give a missed call on 9619333333 or SMS <U/LOAN> to 56161 | www.unionbankofindia.co.in

Auto exports skid 28% in June quarter: Siam

Automobile exports from India declined 28 per cent in the April-June period this year hit by monetary crisis in Africa and various other developing countries, according to the latest data shared by industry body Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM). Overall exports stood at 10,32,449 units in the first quarter ended on June 30, 2023 as compared with 14,25,967 units in the same period of last year.

"All vehicle segments have seen a drop in exports in the first quarter, as there has been a devaluation of currencies in many destinations of exports, especially in Africa and other developing countries," Siam

director general Rajesh Menon told PTI. These countries have been facing challenges of availability of foreign exchange, which is limiting the sales for vehicles and countries are focusing more on imports of essential items, though the demand for vehicles from consumers exists in these markets, he added.

Total passenger vehicle shipments stood at 1,52,156 units in the June quarter, down 5 per cent from 1,60,116 units in April-June period of 2022. Passenger cars shipments dropped to 94,793 units in the period under review from 1,04,400 units in the year-ago period.

PRESS TRUST OF INDIA

Overall exports stood at 1,032,449 units in Q1 ended June 30, 2023, against 1,425,967 units in the same period of last year

Wockhardt bets on antibiotics for turnaround

SOHINI DAS
Mumbai, 16 July

Mumbai-headquartered Wockhardt is charting a turnaround plan, riding on its promising antibiotic pipeline, led by a candidate codenamed WCK5222.

Rarely, an undertrial novel drug developed in India is sought after by doctors to save patient lives. WCK5222 has already saved five patients here under a compassionate use programme. The drug targets several critical and high-priority superbugs listed by the World Health Organization, the Centers for Disease Control and Prevention and the USFDA.

As the drug candidate addresses unmet needs in the management of difficult-to-treat infections, USFDA has approved an abridged clinical development for WCK5222.

Basically, the drug is effective against all the major superbugs that have become resistant to almost all antibiotics used today.

Globally, mortality rates in patients infected by MDR superbugs are over 30 per cent. More than 40 peer-reviewed articles have appeared in medical journals, and thus Indian doctors are now seeking to use the drug under compassionate grounds to save patient lives, the company said.

Sachin Bhagwat, senior vice-president, Wockhardt R&D centre, told Business Standard: "Under compassionate use, lives of five critically ill patients (including patients with cancer, immunosuppression, bone marrow

NOVEL ANTIBIOTIC CANDIDATE PIPELINE

Candidate	Patient segment	Stage of trial
WCK5222	ICU, HABP, VABP, bloodstream infections etc	Global phase 3 trial ongoing
WCK4282	Ward patients, complicated UTI, intra-abdominal infections etc	Phase 3 planned
WCK6777	OPAT, complicated UTI, diabetic foot infections, intra-abdominal infections etc	NIH supported phase 1 trials underway in the US
WCK7860	Outpatient, uncomplicated UTI, Prostatitis, Bacteriuria, gastro-intestinal infections	In advanced discovery stage
WCK4873	Ultra-short course 3-Day; Monotherapy for community-acquired bacterial pneumonia	Phase 3 CBP completed in India; partnered with Jemincare, China

Already launched EMROK/EMROK O 47,000 patients treated in India, Clinical study underway in Russia; filing in several emerging markets completed

CBP: Community-acquired bacterial pneumonia; HABP: Hospital-acquired bacterial pneumonia; VABP: Ventilator associated bacterial pneumonia; UTI: Urinary tract infections; OPAT: Outpatient parenteral antimicrobial chemotherapy

transplants) not responding to even last-line antibiotics, were saved." He added that the firm has also received compassionate use requests from the UK and some South Asian countries.

Before the drug is used under compassionate grounds, one has to demonstrate — through laboratory

testing — that the pathogen that is infecting the patient is susceptible to WCK5222. So, this activity takes place at our R&D centre in Aurangabad as the drug is not available in the market.

"A doctor applies to the DCGI (Drugs Controller General of India) online, and sends us samples or

isolates (pathogens isolated from urine or blood) them. It takes around one day or so to give the results. The drug is then shipped to the location of the patient. The total turnaround time is around 5-7 days after the doctor triggers for use of WCK5222 on compassionate grounds," Bhagwat said.

Thus, some factions in the medical community have requested for emergency use authorisation (EUA) for WCK5222.

Abdul Ghafur, consultant, infectious diseases at Apollo Cancer Institute, Chennai, and managing trustee, AMR Declaration Trust, has written to the DCGI seeking EUA of two new antibiotics, including WCK5222, to save patient lives.

Ghafur told Business Standard that he has asked the Indian regulator to allow EUA of two molecules — Cefiderocol (already approved in the US) and Wockhardt's Cefepime-Zidebactam (which is in phase 3 trials) — in order to save patient lives.

Compassionate use logistics takes time, and serious patients do not survive that window.

Meanwhile, riding on the initial success of WCK5222, Wockhardt is eyeing a turnaround. It is betting big on the overall antibiotic pipeline (see chart).

Wockhardt posted revenues of ₹2,693 crore for 2022-23, down 17 per cent. The company's net loss widened to ₹621 crore in FY23, from ₹411 crore in the previous year. At present, Wockhardt's long-term debt is around ₹490 crore or so, said Deepak Madhani, chief financial officer, Wockhardt.

Rakhe Desh Ke Har Business Ko Cyber Surakshit

Secure your tomorrow, today.

- Future-ready solutions for enterprises of any scale & size
- Protection against ransomware attacks and data breaches
- Backed by international patents and certifications

Proven-track record of protecting critical infrastructure of the country.

Quick Heal Group | Phone: 1800-212-7377 | info@seqrite.com | www.seqrite.com

Tata, Wipro arms eye majority stake in Aachi Masala

SHARLEEN D'SOUZA & DEV CHATTERJEE
Mumbai, 16 July

Tata Consumer Products (TCP) and Wipro Consumer Care and Lighting are in the race to buy a majority stake in Chennai-based Aachi Masala for ₹1,000 crore, sources said.

If the deal goes through, it will be a valuable addition to Wipro Consumer Care and Lighting's portfolio in the ready-made masala market.

In April, Wipro announced that it will buy Brahmins, a Kerala-based traditional vegetarian spice mix and ready-to-cook brand for an undisclosed amount. Wipro also announced in December last year that it has signed a definitive agreement to buy Nirapara to produce an extensive range of products, starting with spices and ready-to-cook items.

TCP, on the other hand, is already present in the segment with its own brand Tata Sampann, and this buyout could help strengthen its hold in the ready-made masala market.

The promoters of Aachi Masala are expected to hold a minority stake. The company, whose revenues stood at ₹1,660 crore and its net profit at ₹217 crore in 2022, has become a takeover target of various larger players.

A banker said some of the private equity firms had also shown interest in acquiring the company. TCP and Wipro Consumer Care declined to comment on "market speculations."

In October last year, Dabur India also picked up 51 per cent stake in Badshah Masala for a cash consideration of ₹587.52 crore.

The company said the spices market in India is ₹60,000 crore, in which branded spices' sales account for ₹25,000 crore.

Educomp SOLUTIONS LIMITED						
STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020						
(Rs. In Lakhs)						
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30/09/2020 (Unaudited)	30/06/2020 (Unaudited)	30/09/2019 (Unaudited)	30/09/2020 (Unaudited)	
1.	Total Income from operations (net)	39.11	28.46	173.08	67.57	348.70
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax, exceptional items and extraordinary item	(422.21)	(1,867.76)	(1,838.12)	(2,289.97)	(2,906.15)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax but after exceptional items and extraordinary item	(422.21)	(1,867.76)	(1,838.12)	(2,289.97)	(2,906.15)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax, exceptional items and extraordinary item	(422.21)	(1,867.76)	(1,838.12)	(2,289.97)	(2,906.15)
5.	Total Comprehensive income	(422.21)	(1,867.76)	(1,838.12)	(2,289.97)	(2,906.15)
6.	Paid up Equity share capital (Face Value Rs.2/- each)	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34
7.	Reserve excluding revaluation reserves	-	-	-	-	(2,97,888.98)
8.	Securities Premium Account	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24
9.	Net worth	(2,88,760.27)	(2,90,644.67)	(2,77,034.15)	(2,88,760.27)	(2,77,034.15)
10.	Paid up Debt Capital/outstanding debt	2,55,780.41	2,57,320.67	2,52,989.24	2,55,780.41	2,52,989.24
11.	Outstanding Redeemable Preferences Shares	-	-	-	-	-
12.	Debt Equity Ratio	(0.89)	-	(0.91)	(0.89)	(0.89)
13.	(Loss)/ Earning Per Share (before and after extraordinary items) (not annualized)	-	-	-	-	-
	(a) Basic	(0.34)	(1.53)	(1.50)	(1.87)	(2.37)
	(b) Diluted	(0.34)	(1.53)	(1.50)	(1.87)	(2.37)
14.	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-
15.	Debt Service Coverage Ratio	(9.96)	-	(14.40)	(9.96)	(14.40)
17.	Interest Service Coverage Ratio	(10.33)	-	(15.39)	(10.33)	(15.39)

Note: The above results are an extracts of the detailed format of Unaudited Financials Results for the quarter and half year ended 30th September, 2020 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and half year financial results is available on the Stock Exchange Website namely, BSE Limited, (www.bseindia.com) National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the Company's Website (www.educomp.com).

For Educomp Solutions Limited (Under CIRP) Sd/- MAHENDER KHANDELWAL TAKEN ON RECORD RESOLUTION PROFESSIONAL OF EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED REGISTRATION NUMBER:-IBBI/PA-001/IP-P00033/2016-17/10086

Place : New Delhi Date : 15/07/2023

NSE

Soch kar Samajh kar Invest kar

TRADING IN OPTIONS WITHOUT KNOWLEDGE IS NOT A GOOD OPTION.

Be cautious, while trading.

- Trade in options only if you have experience & high-risk tolerance
- Know that you can lose substantial amount of money, quickly
- Avoid risky trading strategies like writing option contracts

For more details, visit nseindia.com

SCAN THE QR CODE

फीकी पड़ रही क्यूएसआर फर्मों की चमक

विश्लेषकों का मानना है कि वित्त वर्ष 2023 की सुस्त मार्च तिमाही का रुझान जून तिमाही में भी बरकरार रह सकता है

राम प्रसाद साहू मुंबई, 16 जुलाई



वित्त वर्ष 2023 की जनवरी-मार्च अवधि के कमजोरी तिमाही प्रदर्शन और सुस्त अल्पावधि परिदृश्य को ध्यान में रखकर कई ब्रोकरों ने वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड को छोड़कर क्विक-सर्विसेस रैस्टोरेंट (क्यूएसआर) कंपनियों के लिए आय अनुमान घटाने पर जोर दिया है। ब्रोकरों ने वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 के लिए इन कंपनियों के लिए अपने आय अनुमान 10 प्रतिशत तक घटाए हैं।

आय अनुमानों में कटौती ने उन सूचीबद्ध कंपनियों के प्रदर्शन को और ज्यादा प्रभावित किया है जिन्होंने पिछले महीने के दौरान एक अंक के कमजोरी प्रतिफल के साथ बाजार की तुलना में फीका प्रदर्शन किया।

इससे पहले, इन शेयरों ने बर्गर किंग फ्रेंचाइजी रैस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया (आरबीए) के नेतृत्व में अप्रैल-मई अवधि के दौरान बड़ी तेजी दर्ज की थी। इन शेयरों में दो अंक का प्रतिफल दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2024 की अप्रैल-जून तिमाही प्रदर्शन के अलावा, धीमे सुधार और मार्जिन दबाव से अब इन शेयरों की चाल प्रभावित हो सकती है। वित्त वर्ष 2023 की सूस्त मार्च तिमाही का रुझान जून तिमाही में भी बरकरार रह सकता है।

एचडीएफसी सिक्स्योरिटीज के विश्लेषक नवीन त्रिवेदी ने कहा है, 'वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में कमजोरी के बाद वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में वृद्धि के कई मानक कमजोर रहने का अनुमान है।'

मार्च तिमाही में, पिज्जा हट और केंदुकी फ्रायड चिकन (केएफसी) फ्रेंचाइजी, देवयानी इंटरनेशनल (देवयानी) और सैफायर फूड्स इंडिया ने वित्त वर्ष 2023

क्यूएसआर

कंपनियां	एसएसएजी (फीसदी)	बिक्री (करोड़ रु.)	सालाना बदलाव (फीसदी)	तिमाही बदलाव (फीसदी)	एडिटा (करोड़ रु.)	सालाना बदलाव (फीसदी)	तिमाही बदलाव (फीसदी)
जुबिलेंट फूडवर्क्स	-0.6	1,252	8.1	-4.9	252	-13.0	-13.0
देवयानी इंटरनेशनल**	1.9/-3.2	755	27.8	-4.5	150	7.8	-13.4
सैफायर फूड्स**	2/-4	560	12.8	-6.0	98	-5.2	-15.9
वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड	14.0	543	22.5	-10.7	92	26.2	-16.7
रैस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया	8.3	514	28.6	-2.3	27	35.3	-7.9

*एसएसएजी : रोम स्टोर सेल्स ग्रोथ

** देवयानी व सफायर के एसएसएजी केएफसी/पिज्जा हट के हैं

स्रोत : मिरे एसेट कैपिटल मार्केट्स (इंडिया)

की चौथी तिमाही में कमजोर सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ (एसएसएजी) और मार्जिन दबाव के साथ खराब प्रदर्शन किया। दो कंपनियों के लिए कुल राजस्व वृद्धि काफी हद तक स्टोरों के विस्तार पर केंद्रित रही, भले ही एसएसएजी पर दबाव बना रहा।

कोटक सिक्स्योरिटीज का कहना है कि सालाना आधार पर दो अंक की वृद्धि के साथ समान हालात वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में रह सकते हैं। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में देवयानी की 28 प्रतिशत राजस्व वृद्धि को स्टोर संख्या में 33 प्रतिशत इजाफा होने से मदद मिली, भले ही मांग परिवेश कमजोर रहा। जहां केएफसी के लिए एसएसएजी 2 प्रतिशत तक थी, वहीं पिज्जा हट के लिए इसमें 3 प्रतिशत की गिरावट आई।

घटती बिक्री और कमजोर परिचालन दक्षता के अलावा दूध और पनीर जैसे उत्पादों की ऊंची कीमतों से इन दो कंपनियों का मुनाफा प्रभावित हुआ। सैफायर के प्रबंधन का मानना है कि ऊंची मुद्रास्फीति से ग्राहकों द्वारा कम खरीदारी किए जाने और इस वजह से औसत बिल वैल्यू में कमी आने को बढ़ावा मिला है। साथ ही इससे कमजोर गुणवत्ता की बिक्री मिश्रण और खराब मार्जिन की समस्या भी बढ़ी है। जहां दो फ्रेंचाइजी की केएफसी का रेस्तरां परिचालन मार्जिन 110-220 आधार अंक घट गया, वहीं पिज्जा हट के लिए यह तिमाही आधार पर 490-530 आधार अंक गिर गया। कमजोर मांग परिवेश के बावजूद, दोनों कंपनियां अपने नए स्टोर खोलने और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल रही हैं। जहां देवयानी की मध्यम एक अंक की एसएसएजी वृद्धि और 300 स्टोर वृद्धि का अनुमान बरकरार है, वहीं सैफायर 5-

7 प्रतिशत एसएसएजी और 130-160 स्टोरों की सालाना विस्तार योजना पर आगे बढ़ रही है। आईआईएफएल ने विश्लेषक पर्सी पंथाकी का कहना है कि अपने वित्त वर्ष 2025 के परिचालन लाभ के मुकाबले 18 गुना की उद्यम वैल्यू पर सैफायर के लिए मूल्यांकन देवयानी के 3.1 गुना की तुलना में कम है। सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए एएएफएल (लाइक-फॉर-लाइक) अनुमानों के मुकाबले बेहतर रही है, हालांकि यह काफी हद तक सपाट बनी रही, जिससे खपत में सुस्ती का संकेत मिलता है। जहां 8 प्रतिशत राजस्व वृद्धि स्टोर बढ़ने की वजह से हासिल हुई, वहीं दो अंक की ऑर्डर वृद्धि कंपनी के लिए सकारात्मक थी। 200-225 डीमिनोज स्टोर और 30-35 पोपीज स्टोर खोलकर अपना नेटवर्क बढ़ा रही इस कंपनी ने संकेत दिया है कि मांग में तुरंत सुधार नहीं दिखेगा। कमजोर बिक्री वृद्धि के अलावा, मुद्रास्फीति दबाव से भी परिचालन मुनाफा मार्जिन

सालाना आधार पर 490 आधार अंक तक प्रभावित हुआ। प्रभुदास लीलाधर रिसर्च के शोध विश्लेषक अमनीया अग्रवाल ने जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए प्रति शेयर आय अनुमान वित्त वर्ष 2024 के लिए 9.5 प्रतिशत तक घटा दिया है और शेयर में ताजा तेजी के बाद अपनी रेटिंग भी 'बाय' से घटाकर 'एक्ज्यूज' कर दी है। जेएम फाइनेंशियल रिसर्च का मानना है कि जिन दो कंपनियों ने एसएसएजी मोर्चे पर वृद्धि दर्ज की, वे हैं आरबीए और वेस्टलाइफ। जहां आरबीए के लिए एसएसएजी 8.3 प्रतिशत रही, वहीं वेस्टलाइफ के लिए यह आंकड़ा 14 प्रतिशत रहा। जेएम फाइनेंशियल के विश्लेषक मेहुल देसाई का मानना है कि जहां आरबीए प्रबंधन वित्त वर्ष 2024 के लिए 10 प्रतिशत एसएसएजी की उम्मीद कर रहा है, वहीं एशिया प्रदर्शन पिछले अनुमानों के अनुरूप नहीं है। ब्रोकरेज फर्म ने आरबीए के लिए 'ने होल्ड' रेटिंग दी है।

साथ ही देवयानी की मध्यम एक अंक की एसएसएजी वृद्धि और 300 स्टोर वृद्धि का अनुमान बरकरार है, वहीं सैफायर 5-

7 प्रतिशत एसएसएजी और 130-160 स्टोरों की सालाना विस्तार योजना पर आगे बढ़ रही है। आईआईएफएल ने विश्लेषक पर्सी पंथाकी का कहना है कि अपने वित्त वर्ष 2025 के परिचालन लाभ के मुकाबले 18 गुना की उद्यम वैल्यू पर सैफायर के लिए मूल्यांकन देवयानी के 3.1 गुना की तुलना में कम है। सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए एएएफएल (लाइक-फॉर-लाइक) अनुमानों के मुकाबले बेहतर रही है, हालांकि यह काफी हद तक सपाट बनी रही, जिससे खपत में सुस्ती का संकेत मिलता है। जहां 8 प्रतिशत राजस्व वृद्धि स्टोर बढ़ने की वजह से हासिल हुई, वहीं दो अंक की ऑर्डर वृद्धि कंपनी के लिए सकारात्मक थी। 200-225 डीमिनोज स्टोर और 30-35 पोपीज स्टोर खोलकर अपना नेटवर्क बढ़ा रही इस कंपनी ने संकेत दिया है कि मांग में तुरंत सुधार नहीं दिखेगा। कमजोर बिक्री वृद्धि के अलावा, मुद्रास्फीति दबाव से भी परिचालन मुनाफा मार्जिन

सालाना आधार पर 490 आधार अंक तक प्रभावित हुआ। प्रभुदास लीलाधर रिसर्च के शोध विश्लेषक अमनीया अग्रवाल ने जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए प्रति शेयर आय अनुमान वित्त वर्ष 2024 के लिए 9.5 प्रतिशत तक घटा दिया है और शेयर में ताजा तेजी के बाद अपनी रेटिंग भी 'बाय' से घटाकर 'एक्ज्यूज' कर दी है। जेएम फाइनेंशियल रिसर्च का मानना है कि जिन दो कंपनियों ने एसएसएजी मोर्चे पर वृद्धि दर्ज की, वे हैं आरबीए और वेस्टलाइफ। जहां आरबीए के लिए एसएसएजी 8.3 प्रतिशत रही, वहीं वेस्टलाइफ के लिए यह आंकड़ा 14 प्रतिशत रहा। जेएम फाइनेंशियल के विश्लेषक मेहुल देसाई का मानना है कि जहां आरबीए प्रबंधन वित्त वर्ष 2024 के लिए 10 प्रतिशत एसएसएजी की उम्मीद कर रहा है, वहीं एशिया प्रदर्शन पिछले अनुमानों के अनुरूप नहीं है। ब्रोकरेज फर्म ने आरबीए के लिए 'ने होल्ड' रेटिंग दी है।

साथ ही देवयानी की मध्यम एक अंक की एसएसएजी वृद्धि और 300 स्टोर वृद्धि का अनुमान बरकरार है, वहीं सैफायर 5-

7 प्रतिशत एसएसएजी और 130-160 स्टोरों की सालाना विस्तार योजना पर आगे बढ़ रही है। आईआईएफएल ने विश्लेषक पर्सी पंथाकी का कहना है कि अपने वित्त वर्ष 2025 के परिचालन लाभ के मुकाबले 18 गुना की उद्यम वैल्यू पर सैफायर के लिए मूल्यांकन देवयानी के 3.1 गुना की तुलना में कम है। सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए एएएफएल (लाइक-फॉर-लाइक) अनुमानों के मुकाबले बेहतर रही है, हालांकि यह काफी हद तक सपाट बनी रही, जिससे खपत में सुस्ती का संकेत मिलता है। जहां 8 प्रतिशत राजस्व वृद्धि स्टोर बढ़ने की वजह से हासिल हुई, वहीं दो अंक की ऑर्डर वृद्धि कंपनी के लिए सकारात्मक थी। 200-225 डीमिनोज स्टोर और 30-35 पोपीज स्टोर खोलकर अपना नेटवर्क बढ़ा रही इस कंपनी ने संकेत दिया है कि मांग में तुरंत सुधार नहीं दिखेगा। कमजोर बिक्री वृद्धि के अलावा, मुद्रास्फीति दबाव से भी परिचालन मुनाफा मार्जिन

सालाना आधार पर 490 आधार अंक तक प्रभावित हुआ। प्रभुदास लीलाधर रिसर्च के शोध विश्लेषक अमनीया अग्रवाल ने जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए प्रति शेयर आय अनुमान वित्त वर्ष 2024 के लिए 9.5 प्रतिशत तक घटा दिया है और शेयर में ताजा तेजी के बाद अपनी रेटिंग भी 'बाय' से घटाकर 'एक्ज्यूज' कर दी है। जेएम फाइनेंशियल रिसर्च का मानना है कि जिन दो कंपनियों ने एसएसएजी मोर्चे पर वृद्धि दर्ज की, वे हैं आरबीए और वेस्टलाइफ। जहां आरबीए के लिए एसएसएजी 8.3 प्रतिशत रही, वहीं वेस्टलाइफ के लिए यह आंकड़ा 14 प्रतिशत रहा। जेएम फाइनेंशियल के विश्लेषक मेहुल देसाई का मानना है कि जहां आरबीए प्रबंधन वित्त वर्ष 2024 के लिए 10 प्रतिशत एसएसएजी की उम्मीद कर रहा है, वहीं एशिया प्रदर्शन पिछले अनुमानों के अनुरूप नहीं है। ब्रोकरेज फर्म ने आरबीए के लिए 'ने होल्ड' रेटिंग दी है।

साथ ही देवयानी की मध्यम एक अंक की एसएसएजी वृद्धि और 300 स्टोर वृद्धि का अनुमान बरकरार है, वहीं सैफायर 5-

7 प्रतिशत एसएसएजी और 130-160 स्टोरों की सालाना विस्तार योजना पर आगे बढ़ रही है। आईआईएफएल ने विश्लेषक पर्सी पंथाकी का कहना है कि अपने वित्त वर्ष 2025 के परिचालन लाभ के मुकाबले 18 गुना की उद्यम वैल्यू पर सैफायर के लिए मूल्यांकन देवयानी के 3.1 गुना की तुलना में कम है। सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए एएएफएल (लाइक-फॉर-लाइक) अनुमानों के मुकाबले बेहतर रही है, हालांकि यह काफी हद तक सपाट बनी रही, जिससे खपत में सुस्ती का संकेत मिलता है। जहां 8 प्रतिशत राजस्व वृद्धि स्टोर बढ़ने की वजह से हासिल हुई, वहीं दो अंक की ऑर्डर वृद्धि कंपनी के लिए सकारात्मक थी। 200-225 डीमिनोज स्टोर और 30-35 पोपीज स्टोर खोलकर अपना नेटवर्क बढ़ा रही इस कंपनी ने संकेत दिया है कि मांग में तुरंत सुधार नहीं दिखेगा। कमजोर बिक्री वृद्धि के अलावा, मुद्रास्फीति दबाव से भी परिचालन मुनाफा मार्जिन

सालाना आधार पर 490 आधार अंक तक प्रभावित हुआ। प्रभुदास लीलाधर रिसर्च के शोध विश्लेषक अमनीया अग्रवाल ने जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए प्रति शेयर आय अनुमान वित्त वर्ष 2024 के लिए 9.5 प्रतिशत तक घटा दिया है और शेयर में ताजा तेजी के बाद अपनी रेटिंग भी 'बाय' से घटाकर 'एक्ज्यूज' कर दी है। जेएम फाइनेंशियल रिसर्च का मानना है कि जिन दो कंपनियों ने एसएसएजी मोर्चे पर वृद्धि दर्ज की, वे हैं आरबीए और वेस्टलाइफ। जहां आरबीए के लिए एसएसएजी 8.3 प्रतिशत रही, वहीं वेस्टलाइफ के लिए यह आंकड़ा 14 प्रतिशत रहा। जेएम फाइनेंशियल के विश्लेषक मेहुल देसाई का मानना है कि जहां आरबीए प्रबंधन वित्त वर्ष 2024 के लिए 10 प्रतिशत एसएसएजी की उम्मीद कर रहा है, वहीं एशिया प्रदर्शन पिछले अनुमानों के अनुरूप नहीं है। ब्रोकरेज फर्म ने आरबीए के लिए 'ने होल्ड' रेटिंग दी है।

साथ ही देवयानी की मध्यम एक अंक की एसएसएजी वृद्धि और 300 स्टोर वृद्धि का अनुमान बरकरार है, वहीं सैफायर 5-

कम लागत और ज्यादा

मार्जिन से मिलेगा तेल

विपणन कंपनियों को सहारा

शुभायन चक्रवर्ती नई दिल्ली, 16 जुलाई

कच्चे तेल की कम लागत और ज्यादा विपणन मार्जिन से वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में तेल विपणन कंपनियों की किस्मत चमक सकती है, वहीं सिटी गैस वितरक कंपनियों को एलएनजी की कम हाजिर कीमतों का फायदा मिल सकता है।

हालांकि ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में वृद्धि की प्रवृत्ति विगत के मुकाबले अलग रह सकती है। विश्लेषकों का अनुमान है कि अपस्ट्रीम राष्ट्रीय तेल व गैस कंपनियों मसलन ओएनजीसी व ऑयल इंडिया के लिए गैस उत्पादन से आय घट सकती है, जिसकी वजह 1 अप्रैल से लागू देसी गैस की नई व्यवस्था है।

वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में भारी नुकसान दर्ज करने के बाद ओएएमसी का विपणन मार्जिन धीरे-धीरे चार महीने में रिकवर हो गया। विश्लेषकों को उम्मीद है कि ओएएमसी के नतीजे परिचालन के स्तर पर बेहतर हो सकते हैं, जिसकी वजह वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में बचे गए ईंधन पर 8-9 रुपये प्रति लीटर के ब्लैंडेड मार्जिन के कारण विपणन लाभ में हुई रिकवरी है, जो वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में 3 रुपये प्रति लीटर रही थी।

विश्लेषकों का अनुमान है कि अपेक्षाकृत कम सकल रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) के बावजूद ओएएमसी का मार्जिन ज्यादा रहेगा। जीआरएम का मतलब प्रति बैरल कच्चे तेल को रिफाईंड ईंधन में बदलने से रिफाइनर को मिलने वाला लाभ है। बेंचमार्क सिंगापुर जीआरएम वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में औसतन 4.1 डॉलर प्रति बैरल रहा, जो वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में 8.2 डॉलर प्रति बैरल रहा था।

साल 2022 में रिफाईंड उत्पादों की आपूर्ति में अवरुध और चीन से कम पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात था। इससे जीआरएम तेजी से बढ़कर 25.2 डॉलर प्रति बैरल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इससे भारतीय रिफाइनरों ने अपनी आय में बढ़ाव देखा।

लेकिन पिछले साल के आखिर में मॉस्को ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति बढ़ाई ताकि यूक्रेन से अपने युद्ध के लिए रकम का इंतजाम कर सके। इस वजह से जीआरएम तेजी से घटा। हालांकि भारतीय तेल विपणन कंपनियों की तरफ से रूस से छूट पर तेल हासिल करना जारी है।

प्रभुदास लीलाधर ने एक रिपोर्ट में कहा, रिफाइनिंग लाभ हालांकि कम रहेगा, लेकिन विपणन मार्जिन में सुधार से तेल विपणन कंपनियों का पहली तिमाही में कर पश्चात लाभ 242.7 अरब रुपये पर पहुंच जाएगा, जो चौथी तिमाही में 211.2 अरब रुपये रहा था। इस बीच, देसी गैस की लागत में नरमी, हाजिर एलएनजी की कीमतों में गिरावट और अल्पावधि के लिए एलएनजी की कम कीमतें सिटी गैस वितरक कंपनियों का कर पश्चात लाभ 25 फीसदी तक बढ़ा सकता है।

गैस उत्पादकों को परेशानी

राष्ट्रीय तेल कंपनियों मसलन ओएनजीसी व आईआईएल उत्पादन वॉल्यूम बनाए रख सकती हैं, लेकिन गैस से उन्हें कीमत कम मिलेगी क्योंकि गैस की कीमतें 6.5 डॉलर प्रति एएमबीटीयू पर सीमित रखी गई हैं। ऐसे में इन कंपनियों का परिचालन मार्जिन 36 फीसदी घट सकता है और शुद्ध आय सालाना आधार पर 5.1 फीसदी कम हो सकती है। आईसीआईसीआई सिक्स्योरिटीज ने हालिया नोट में ये बातें कही हैं।

कल्याण ज्वैलर्स में तेजी बरकरार रहने के आसार

कल्याण ज्वैलर्स के शेयर में बड़ी तेजी ने कई विश्लेषकों को चकित कर दिया है, हालांकि उनका मानना है कि इस शेयर में अभी और तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि त्रिपुर की यह स्वर्ण रिटेलर अपने नए एसेट-लाइट नेटवर्क विस्तार

मॉडल की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। कंपनी का शेयर पिछले महीने में 62 प्रतिशत चढ़ गया, जबकि बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स में महज 5 प्रतिशत की तेजी आई। अपने ताजा बिजनेस अपडेट में, कंपनी ने कहा है कि उसकी समेकित

बिक्री सालाना 3.1 प्रतिशत के साथ अनुमान की तुलना में ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि उसे स्वर्ण कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू मजबूत बिक्री से मदद मिली। इसके अलावा कंपनी ने तिमाही के दौरान 12

नए शोरूम खोलकर तेज नेटवर्क विस्तार किया और इसके साथ ही उसके कुल स्टोरों की संख्या बढ़कर 159 हो गई। वारबर्ग पिकंस समर्थित इस कंपनी ने दीवाली से पहले अन्य 20 स्टोर खोलने की योजना बनाई है। नेटवर्क विस्तार को ध्यान में रखते हुए विश्लेषक यह भरोसा जता रहे हैं कि कंपनी मजबूत विकास ही राह पर बढ़ रही है।

एचएसबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, कल्याण ज्वैलर्स का शेयर पिछले तीन महीनों के दौरान 56 प्रतिशत चढ़ा है, क्योंकि उसे राजस्व में लगातार वृद्धि और नेटवर्क विस्तार से मदद मिली। कंपनी मजबूत राजस्व वृद्धि, नकदी स्तर में सुधार, सकारात्मक बाजार धारणा, और निरंतर वृद्धि से शानदार प्रदर्शन करने में सफल रही है। बीएस

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड			
कॉर्पोरेट कार्यालय : सेक्टर आर्टी 1 पार्क, बी 2, विलिंडन, एन 1, नए, कल्याण नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411014, शाखा कार्यालय : नविल पहाड़ी नॉर्थव, मारुति कॉम्प्लेक्स, बांसवाड़ा रोड कान्हेरकर कार्यालय के पीछे, मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान 327001			
कच्चा सूचना			
वित्तीय आकृतियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रविणित हित प्रदान अधिनियम, 2002 की धारा 13(4), प्रतिभूति हित (प्रदान) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत (परिच्छिन्न-IV)			
नैस कि, विशेष आरिधियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रविणित हित प्रदान अधिनियम, 2002 के तहत वेल्थ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (बीएसएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के तहत प्रतिभूति हित (प्रदान) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत पठित धारा 13(2) के तहत प्रदान शर्तियों के उपयोग में आधेतरांतर में कथित सूचना को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्निर्माण करने की कतई हुए निमित्तित कर्जदार (रें)/सह-कर्जदार (रें)/जमानती (रें) को मांग सूचना जारी की। कर्जदार (रें)/सह-कर्जदार (रें)/जमानती (रें) के गति के पुनर्निर्माण में असफल होने के कारण, एडवाइज कर्जदार (रें)/सह-कर्जदार (रें)/जमानती (रें) को मांग सूचना जारी किया जाता है कि अधोरेखित नैस वेल्थ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से कथित नियमों के नियम 8(1) के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उभे प्रदान शर्तियों के उपयोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार (रें)/सह-कर्जदार (रें)/जमानती (रें) तथा जमानत को पत्राह्वान निम्नलिखित कथित सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और कथित सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार यहाँ नीचे उल्लिखित राशि तथा उभे पर पड़े व्याज के लिए बीएसएफएल के प्रधान प्रभार का विषय रहेगा।			
कर्जदार (रें)/जमानती (रें) के नाम (लैन नं., शाखा का नाम)	प्रतिभूत आसित का विवरण (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	कच्चा करने की तिथि
शाखा: बांसवाड़ा (लैन नं. 475RMS99249067) 1. शक्ति खाना (कर्जदार) पता: राजनालाय स्प्रिंगबाड़ा बांसवाड़ा बांसवाड़ा-327001 2. गुलनाज भी (सह-कर्जदार) श्री राम कॉलोनी दाहोड रोड बांसवाड़ा बांसवाड़ा-327001 शाखा: वॉर्ल्ड 32x30 फीट एरिया 960 वर्ग फुट वाले ग्राम भवनपुत्र पश्चिम हल्का टिकरिया तहसील और जिला बांसवाड़ा राजस्थान-327001, पूर्व- अन्य का प्लॉट, पश्चिम- श्रीमती वैशा तीरवार को बचे हुए प्लॉट का हिस्सा, उत्तर- सड़क 15 फीट, दक्षिण- प्लॉट का बाकी हिस्सा		18 अप्रैल, 2023 रु. 6,14,890/- रुपये छ: लाख चौदह हजार आठ सौ नब्बे मात्र)	12-जुलाई-2023
मांग सूचना नं. 31/12/2019	प्रतिभूत आसित का विवरण (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	कच्चा करने की तिथि
31/12/2020 (अचल सम्पत्ति)	30/09/2020 (अचल सम्पत्ति)	31/12/2019 (अचल सम्पत्ति)	31/12/2020 (अचल सम्पत्ति)
31/03/2020 (लेखमारी)			

Educomp एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड

CIN: L74999DL1994PLC061353 पंजी. कार्यालय : 1211, पदमा टावर-1-5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 ई-मेल: investor.services@educomp.com, वेबसाइट: www.educomp.com

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त			नौ माह समाप्त			वर्ष समाप्त		
		31/12/2020 (अचल सम्पत्ति)	30/09/2020 (अचल सम्पत्ति)	31/12/2019 (अचल सम्पत्ति)	31/12/2020 (अचल सम्पत्ति)	31/12/2019 (अचल सम्पत्ति)	31/03/2020 (लेखमारी)	31/03/2020 (लेखमारी)	31/03/2020 (लेखमारी)	
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	17.23	39.11	121.44	84.80	470.14	966.10	966.10	966.10	
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर अपवाद मदों तथा असाधारण मदों से पूर्व	(698.32)	(422.21)	(1,300.32)	(2,988.29)	(4,206.47)	(14,366.42)	(14,366.42)	(14,366.42)	
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पूर्व किंतु अपवाद मदों तथा असाधारण मदों के पश्चात	(698.32)	(422.21)	(1,300.32)	(2,988.29)	(4,206.47)	(15,136.83)	(15,136.83)	(15,136.83)	
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर अपवाद मदों तथा असाधारण मदों के पश्चात	(698.32)	(422.21)	(1,300.32)	(2,988.29)	(4,206.47)	(15,136.83)	(15,136.83)	(15,136.83)	
5.	कुल व्यापक आय	(698.32)	(422.21)	(1,300.32)	(2,988.29)	(4,206.47)	(15,101.39)	(15,101.39)	(15,101.39)	
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 2/- प्रत्येक)	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	
7.	संचय पुनर्मूल्यन संचय छोड़कर	-	-	-	-	-	(2,97,888.98)	(2,97,888.98)	(2,97,888.98)	
8.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	
9.	शुद्ध मूल्य	(2,88,439.56)	(2,88,760.27)	(2,77,942.73)	(2,88,439.56)	(2,77,942.73)	(2,90,195.17)	(2,90,195.17)	(2,90,195.17)	
10.	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	2,55,420.59	2,55,780.41	2,53,598.85	2,55,420.59	2,53,598.85	2,57,091.39	2,57,091.39	2,57,091.39	
11.	बकाया पुनर्निर्माण अधिमान शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	ऋण इक्विटी अनुपात	-	(0.89)	-	-	-	(0.89)	(0.89)	(0.89)	
13.	प्रति शेयर (हानि)/अर्जन (असाधारण मदों से पूर्व और पश्चात) (अ-वार्षिककृत)	(0.57)	(0.34)	(1.06)	(2.44)	(3.43)	(12.36)	(12.36)	(12.36)	
14.	पूँजी पुनर्निर्माण स									